

Chapter 1: Verb “To Be” (Am / Is / Are)

अरे वाह! चलो शुरू करते हैं अपनी English journey। आज हम सीखने वाले हैं verb “to be” – मतलब hona. हिंदी में “होना” ही इसका base मतलब है।

Example:

- मैं खुश हूँ = I am happy.
- वह डॉक्टर है = He is a doctor.
- हम दोस्त हैं = We are friends.

तो “to be” ऐसा verb है जो बताता है कि कोई चीज़ है, कोई इंसान कैसा है, या कोई पहचान (identity) या हालत (condition) क्या है।

“Am, Is, Are” कब और कैसे use करना है?

देखो boss, तीन main forms हैं: am, is, are.

- Am: सिर्फ I (मैं) के साथ आता है।
- Is: singular subject (he, she, it, एक आदमी/चीज़) के साथ आता है।
- Are: plural subjects (we, you, they, ज़्यादा लोग/चीज़ें) के साथ आता है।

Simple formula याद रखो:

I = am

He / She / It / Singular naam = is

We / You / They / Plural naam = are

Example Sentences (20)

(1) I am a student. = मैं स्टूडेंट हूँ।

(2) You are my friend. = तुम मेरे दोस्त हो।

(3) He is a teacher. = वह शिक्षक है।

(4) She is happy. = वह खुश है।

(5) It is small. = यह छोटा है।

(6) We are ready. = हम तैयार हैं।

(7) They are doctors. = वे डॉक्टर हैं।

- (8) My name is Rahul. = मेरा नाम राहुल है।
- (9) This is my book. = यह मेरी किताब है।
- (10) That is your pen. = वह तुम्हारा पेन है।
- (11) I am fine. = मैं ठीक हूँ।
- (12) You are late. = तुम लेट हो।
- (13) He is busy. = वह बिज़ी है।
- (14) She is clever. = वह तेज़ है।
- (15) We are strong. = हम मज़बूत हैं।
- (16) They are students. = वे छात्र हैं।
- (17) My father is tall. = मेरे पापा लंबे हैं।
- (18) The sky is blue. = आसमान नीला है।
- (19) You are smart. = तुम स्मार्ट हो।
- (20) I am hungry. = मैं भूखा हूँ।

छोटा **Vocabulary List**

- (1) Happy = खुश
- (2) Sad = उदास
- (3) Teacher = शिक्षक
- (4) Student = छात्र
- (5) Friend = दोस्त
- (6) Book = किताब
- (7) Pen = पेन
- (8) Small = छोटा

(9) Big = बड़ा

(10) Ready = तैयार

(11) Hungry = भूखा

(12) Busy = बिजी

(13) Clever = चालाक

(14) Strong = मज़बूत

(15) Blue = नीला

Funny Recap (Arre Yaar Session)

चलो जल्दी से याद करें –

- मैं (I) = am,
- वह (he / she / it) = is,
- हम / तुम / वे (we / you / they) = are.

बस इतनी सी बात है boss!

अब देखो अगर कोई बोले:

- “तू मेरा best friend है ना?” तो English में सरल है – You are my best friend.
- अगर तुम गुस्से में बोलो: “मैं भूखा हूँ यार!” तो English में – I am hungry, yaar!

तो बस “am, is, are” को ऐसे ही याद रखना जैसे चाय, बिस्किट, और दोस्ती – inseparable combo!